



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 387 राँची, शुक्रवार

15 ज्येष्ठ, 1937 (श०)

5 जून, 2015 (ई०)

jkt; fuokpu vk; kx] >kj [k.M

vknsk

4 जून 2015

संख्या: 03नि०-106/2011 रा०नि०आ० 1418 -- यतः राज्य निर्वाचन आयोग को समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2010 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 क, सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों ने समयक सूचना दिये जाने पर भी उक्त असफलता के लिया कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के

पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 कि धारा 10क सहपठित, झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 'क' के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों एवं स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित किया जाता है।

Øekal	ftyk	fuokpu {s-	uke ,oairk	dlj.k
1	2	3	4	5
1	ykgjnxxk	XVII ykgjnxxk@i s kjkj & 01	'kkjnk noh] xte&ntfn:] i [k.M&i s kjkj] ftyk&ykgjnxxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
2		XVII ykgjnxxk@fdLdk&02	bcjkj va kjh] xte&uokMhg] i [k.M&fdLdk] ftyk&ykgjnxxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
3		XVII ykgjnxxk@fdLdk&02	dndj va kjh] xte&ukjh uokMhg] i [k.M&fdLdk] ftyk&ykgjnxxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
4		XVII ykgjnxxk@fdLdk&02	eusoj mjkb] xte&dfi ; kMhg] i [k.M&fdLdk] ftyk&ykgjnxxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
5		XVII ykgjnxxk@fdLdk&02	fo t; i l kn] xte&[kjpk] i [k.M&fdLdk] ftyk&ykgjnxxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
6		XVII ykgjnxxk@fdLdk&02	l w bdkr i l kn] xte&fdLdk] i [k.M&fdLdk] ftyk&ykgjnxxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
7		XVII ykgjnxxk@dM&03	t; rh noh] xte&l yxh] i [k.M&dM] ftyk&ykgjnxxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA

8	XVII ykqjnxk@dM&03	rgjk [kkru] xte&l q:] i [k.M&dM] ftyk&ykqjnxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
9	XVII ykqjnxk@dM&03	l xhrk d[ekjh] xte&cMdh pka h] i [k.M&dM] ftyk&ykqjnxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
10	XVII ykqjnxk@djk&04	: derh Hkxr] xte&, Mknks.] i [k.M&djk] ftyk&ykqjnxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
11	XVII ykqjnxk@djk&04	: ik mjkb] xte&djk] i [k.M&djk] ftyk&ykqjnxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
12	XVII ykqjnxk@ykqjnxk&05	ruok dPNI] xte&fgjgh] i [k.M&ykqjnxk] ftyk&ykqjnxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
13	XVII ykqjnxk@ykqjnxk&05	ekyrh Vki k] xte&ufn; k gje] i [k.M&ykqjnxk] ftyk&ykqjnxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
14	XVII ykqjnxk@ykqjnxk&05	ehjk Hkxr] xte&costokyh] i [k.M&ykqjnxk] ftyk&ykqjnxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
15	XVII ykqjnxk@ykqjnxk&05	l qhrk Hkxr] xte&vks uk] i [k.M&ykqjnxk] ftyk&ykqjnxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
16	XVII ykqjnxk@ykqjnxk&05	l qfr noh] xte&gje] i [k.M&ykqjnxk] ftyk&ykqjnxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
17	XVII ykqjnxk@l dgk&06	vpzk noh] xte&fl fB; k] i [k.M&l dgk] ftyk&ykqjnxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
18	XVII ykqjnxk@l dgk&06	m"kk noh] xte&cy/h] i [k.M&l dgk] ftyk&ykqjnxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA

19	XVII ykqjnxk@I Bgk&06	xflM+ k nsh] xte&mxjk] i [k.M&I Bgk] ftyk&ykqjnxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
20	XVII ykqjnxk@I Bgk&06	'kdlryk nsh] xte&cnyk] i [k.M&I Bgk] ftyk&ykqjnxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
21	XVII ykqjnxk@I Bgk&06	I El kn [kkru] xte&fprjh vEckVkyh i [k.M&I Bgk] ftyk&ykqjnxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
22	XVII ykqjnxk@I Bgk&06	I xhrk nsh] xte&I Bgk] i [k.M&I Bgk] ftyk&ykqjnxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
23	XVII ykqjnxk@I Bgk&06	jk/kk nsh] 1/rdh] xte&dYgsi KV] i [k.M&I Bgk] ftyk&ykqjnxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
24	XVII ykqjnxk@Hk.Mjk&07	vfurk d[ekjh] xte&Hk.Mjk] i [k.M&Hk.Mjk] ftyk&ykqjnxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
25	XVII ykqjnxk@Hk.Mjk&07	bl gkd ckMh] xte&Hk.eknk] i [k.M&Hk.Mjk] ftyk&ykqjnxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
26	XVII ykqjnxk@Hk.Mjk&07	djek mjkk] xte&[kk: ekVw i [k.M&Hk.Mjk] ftyk&ykqjnxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
27	XVII ykqjnxk@Hk.Mjk&07	fo t; mjkk] xte&cge.kMhgk] i [k.M&Hk.Mjk] ftyk&ykqjnxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
28	XVII ykqjnxk@Hk.Mjk&07	cdks oj mjkk] xte&[okl f[ktjh] i [k.M&Hk.Mjk] ftyk&ykqjnxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
29	XVII ykqjnxk@Hk.Mjk&07	'kfu; k mjkk] xte&edtnk] i [k.M&Hk.Mjk] ftyk&ykqjnxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA

30		XVII yksjnxk@Hk.Mjk&07	I jkst noh] xke&Hk.Mjk] i z[k.M&Hk.Mjk] ftyk&yksjnxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
31		XVII yksjnxk@Hk.Mjk&07	I g'sk plnz d[tyj] xke&M[ejh] i k[&>h[ks pVvh] i z[k.M&Hk.Mjk] ftyk&yksjnxk	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA

jkt; fuokpu vk; Qr ds vkns k l §

(g0@&) अस्पष्ट

I fpo

jkt; fuokpu vk; lxx]

>kj [k.M] jkph A
